

इसे वेबसाइट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

( असाधारण )  
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 136]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 4 मई 2024—वैशाख 14, शक 1946

विधि (निर्वाचन) कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 4 मई 2024

फा.क्र. 21-2024-4-RO-ARO-वि.निर्वा.-118.— भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना क्र. 434-म.प्र.-लो.स.-2024,  
दिनांक 1 मई 2024 सर्वसाधारण की जानकारी के लिये राज्य के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित की जाती है.

राजेश कुमार कौल, सचिव.

## भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110 001

नई दिल्ली, दिनांक 1 मई, 2024-11 वैशाख, 1946 (शक)

### अधिसूचना

सं० 434/म.प्र.-लो.स./2024(1):- लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 22 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्वाचन आयोग इसके द्वारा दिनांक 18 मार्च, 2024 की अधिसूचना 434/म.प्र.-लो.स./2024(1) द्वारा नियुक्त अधिकारियों के अतिरिक्त नीचे की सारणी के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट मध्य प्रदेश राज्य की सरकार के अधिकारी को, उक्त सारणी के स्तम्भ 1 में यथाविनिर्दिष्ट मध्य प्रदेश राज्य के संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यों के निर्वहन में, उनकी सहायता करने के लिए सहायक रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में नियुक्त करता है :-

### सारणी

संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की क्रम संख्या एवं नाम	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का क्रमांक एवं नाम	सहायक रिटर्निंग ऑफिसर
(1)	(2)	(3)
1- मुरैना	1. श्योपुर	2-तहसीलदार, श्योपुर
		3-तहसीलदार, बड़ोदा
		4-नायब तहसीलदार, मानपुर
	2. विजयपुर	2-तहसीलदार, विजयपुर
		3-तहसीलदार, कराहल
		4-तहसीलदार, चीरपुर
	3. सबलगढ़	2-तहसीलदार, सबलगढ़
		3-नायब तहसीलदार-1, सबलगढ़
		4-नायब तहसीलदार-1, कैलारस
	4. जौरा	2-तहसीलदार, कैलारस
		3-नायब तहसीलदार-1, जौरा
		4-नायब तहसीलदार-2, जौरा
	5. सुमावली	2-तहसीलदार, जौरा
		3-तहसीलदार, मुरैना ग्रामीण
		4-नायब तहसीलदार-1, मुरैना शहरी
	6. मुरैना	2-तहसीलदार, मुरैना शहरी
		3-तहसीलदार, बानमौर
		4-नायब तहसीलदार, बानमौर
	7. दिमनी	2-तहसीलदार, अम्बाह
		3-नायब तहसीलदार-1, मुरैना ग्रामीण

संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की क्रम संख्या एवं नाम	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का क्रमांक एवं नाम	सहायक रिटर्निंग ऑफिसर
(1)	(2)	(3)
	8. अम्बाह (अ.जा.)	4-नायब तहसीलदार-1, अम्बाह
		2-तहसीलदार, पोरसा
		3-नायब तहसीलदार-2, अम्बाह
		4-नायब तहसीलदार, पोरसा
2- भिण्ड (अ.जा.)	9. अटेर	2-तहसीलदार, अटेर
		3-नायब तहसीलदार, सुरपुरा
	10. भिण्ड	4- नायब तहसीलदार, पीपरी
		2-तहसीलदार शहरी, भिण्ड
	11. लहार	3-तहसीलदार ग्रामीण, भिण्ड
		4-नायब तहसीलदार, भिण्ड
		2-तहसीलदार, लहार
	12. मेहगांव	3-तहसीलदार, मिहोना
		4-नायब तहसीलदार, लहार
		2-तहसीलदार, मेहगांव
	13. गोहद (अ.जा.)	3-तहसीलदार, गोरमी
		4-नायब तहसीलदार, मेहगांव
		2-तहसीलदार, गोहद
	20. सेवड़ा	3-तहसीलदार, मौ
		4-नायब तहसीलदार, गोहद
		2-तहसीलदार, इन्दरगढ़
21. भाण्डेर (अ.जा.)	3-नायब तहसीलदार-1, सेवड़ा	
	4-नायब तहसीलदार-2, सेवड़ा	
	2-तहसीलदार, भाण्डेर	
22. दतिया	3-नायब तहसीलदार-1, भाण्डेर	
	4-नायब तहसीलदार-2, भाण्डेर	
	2-तहसीलदार, दतिया	
3 - ग्वालियर	14. ग्वालियर ग्रामीण	3-नायब तहसीलदार-1, दतिया
		4-नायब तहसीलदार-2, दतिया
		2-तहसीलदार, तानसेन
	15. ग्वालियर	3-नायब तहसीलदार, मुरार
		4-नायब तहसीलदार, हस्तिनापुर
		2-तहसीलदार, मुरार
	16. ग्वालियर पूर्व	3-नायब तहसीलदार, पुरानी छावनी
		4-नायब तहसीलदार, बहोडापुर
		2-तहसीलदार, सिटी सेंटर
	17. ग्वालियर दक्षिण	3-नायब तहसीलदार, मेहरा
		4-नायब तहसीलदार, उटीला
		2-नायब तहसीलदार, लशकर-1
18. भितरवार	3-नायब तहसीलदार, लशकर-2	
	4-अधीक्षक, भू-अभिलेख, ग्वालियर	
		2-तहसीलदार, भितरवार

संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की क्रम संख्या एवं नाम	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का क्रमांक एवं नाम	सहायक रिटर्निंग ऑफिसर
(1)	(2)	(3)
		3-तहसीलदार, घाटीगांव
		4-नायब तहसीलदार, चीनोर
	19. डबरा (अ.जा.)	2-तहसीलदार, डबरा
		3-नायब तहसीलदार, डबरा-1
		4-नायब तहसीलदार, डबरा-2
	23. करैरा (अ.जा.)	2-तहसीलदार, करैरा
		3-नायब तहसीलदार, करैरा
		4-नायब तहसीलदार, नरवर
	24. पोहरी	2-तहसीलदार, पोहरी
		3-नायब तहसीलदार, पोहरी
		4-नायब तहसीलदार, बैराड़
4- गुना	25. शिवपुरी	2-तहसीलदार, शिवपुरी
		3-नायब तहसीलदार, शिवपुरी
		4-नायब तहसीलदार, खोड़ (पिछोर)
	26. पिछोर	2-तहसीलदार, पिछोर
		3-नायब तहसीलदार, पिछोर
		4-तहसीलदार, खनियाधाना
	27. कोलारस	2-तहसीलदार, कोलारस
		3-नायब तहसीलदार, कोलारस
		4-नायब तहसीलदार, बदरवास
	28. बामोरी	2-तहसीलदार, बामोरी
		3-नायब तहसीलदार, वृत्त फतेहगढ़, तहसील, बामोरी
		4-नायब तहसीलदार, वृत्त ऊमरी, तहसील गुना (ग्रामीण)
	29. गुना (अ.जा.)	2-तहसीलदार, गुना (ग्रामीण)
		3-तहसीलदार, गुना (शहरी)
		4-नायब तहसीलदार, गुना (शहरी)
	32. अशोकनगर (अ.जा.)	2-तहसीलदार, अशोकनगर
		3-नायब तहसीलदार, अशोकनगर
		4-तहसीलदार, शाढौरा
	33. चंदेरी	2-तहसीलदार, चंदेरी
		3-तहसीलदार, ईसागढ़
		4-तहसीलदार, नईसराय
	34. मुंगावली	2-तहसीलदार, मुंगावली
		3-तहसीलदार, बहादुरपुर
		4-तहसीलदार, पिपरई
5- सागर	35. बीना (अ.जा.)	2-तहसीलदार, बीना
		3-नायब तहसीलदार, बीना-1
		4-नायब तहसीलदार, बीना-2
	36. खुरई	2-तहसीलदार, खुरई
		3-तहसीलदार, मालथौन
		4-नायब तहसीलदार, खुरई

संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की क्रम संख्या एवं नाम	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का क्रमांक एवं नाम	सहायक रिटर्निंग ऑफिसर
(1)	(2)	(3)
	37. सुरखी	2-तहसीलदार, राहतगढ़ 3-तहसीलदार, जैसीनगर 4-नायब तहसीलदार, राहतगढ़
	40. नरयावली (अ.जा.)	2-तहसीलदार, सागर (ग्रामीण) 3-नायब तहसीलदार, नरयावली 4-नायब तहसीलदार, सागर (ग्रामीण)
	41. सागर	2-तहसीलदार (शहरी), सागर 3-अधीक्षक भू-अभिलेख, सागर 4-नायब तहसीलदार, सागर (शहरी)
	146. कुरवाई (अ.जा.)	2-तहसीलदार, कुरवाई 3-नायब तहसीलदार, कुरवाई 4-तहसीलदार, पठारी
	147. सिरोंज	2-तहसीलदार, सिरोंज 3-नायब तहसीलदार, सिरोंज 4-तहसीलदार, लटेरी
	148. शमशाबाद	2-तहसीलदार, नटेरन 3-नायब तहसीलदार, नटेरन 4-तहसीलदार, शमशाबाद
6- टीकमगढ़ (अ.जा.)	43. टीकमगढ़	2-तहसीलदार, टीकमगढ़ 3-तहसीलदार, बड़गांव 4-नायब तहसीलदार, समर्सा
	44. जतारा (अ.जा.)	2-तहसीलदार, जतारा 3-तहसीलदार, लिधौरा 4-नायब तहसीलदार, बराना
	45. पृथ्वीपुर	2-तहसीलदार, पृथ्वीपुर 3-तहसीलदार, मोहनगढ़ 4-नायब तहसीलदार, जेरीन
	46. निवाड़ी	2-तहसीलदार, निवाड़ी 3-तहसीलदार, ओरछा 4-नायब तहसीलदार, निवाड़ी
	47. खरगापुर	2-तहसीलदार, पलेरा 3-तहसीलदार, खरगापुर 4-तहसीलदार, बलदेवगढ़
	48. महाराजपुर	2-तहसीलदार, नौगांव 3-नायब तहसीलदार, नौगांव 4-तहसीलदार, महाराजपुर
	51. छतरपुर	2-तहसीलदार, छतरपुर (नगर) 3-तहसीलदार, छतरपुर (ग्रामीण) 4-नायब तहसीलदार, छतरपुर
	52. बिजावर	2-तहसीलदार, बिजावर 3-नायब तहसीलदार, बिजावर

संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की क्रम संख्या एवं नाम	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का क्रमांक एवं नाम	सहायक रिटर्निंग ऑफिसर
(1)	(2)	(3)
7- दमोह	38. देवरी	4-नायब तहसीलदार, देवरा
		2-तहसीलदार, देवरी
		3-तहसीलदार, केसली
	39. रहली	4-नायब तहसीलदार, देवरी
		2-तहसीलदार, रहली
		3-तहसीलदार, गढ़ाकोटा
	42. बण्डा	4-नायब तहसीलदार, रहली
		2-तहसीलदार, बण्डा
		3-तहसीलदार, शाहगढ़
	53. मलहरा	4-नायब तहसीलदार, बण्डा
		2-तहसीलदार, बड़ामलहरा
		3- तहसीलदार, बकस्वाहा
	54. पथरिया	4-तहसीलदार, धुवारा
		2-तहसीलदार, पथरिया
3- तहसीलदार, बटियागढ़		
55. दमोह	4-नायब तहसीलदार, पथरिया	
	2-तहसीलदार, दमोह	
	3-तहसीलदार, दमयंतीपुरम, दमोह	
56. जबेरा	4-नायब तहसीलदार, दमोह	
	2-तहसीलदार, तेन्दुखेड़ा	
	3- तहसीलदार, जबेरा	
57. हटा (अ.जा.)	4-नायब तहसीलदार, बनवार	
	2- तहसीलदार, हटा	
	3-नायब तहसीलदार, पटेरा	
8-खजुराहो	49. चांदला (अ.जा.)	4- नायब तहसीलदार, हटा
		2-तहसीलदार, लवकुशनगर
		3-तहसीलदार, चांदला
	50. राजनगर	4- तहसीलदार, गौरिहार
		2-तहसीलदार, राजनगर
		3-नायब तहसीलदार, राजनगर
	58. पवई	4- नायब तहसीलदार, चन्द्रनगर
		2-तहसीलदार, पवई
		3-तहसीलदार, शाहनगर
	59. गुन्नौर (अ.जा.)	4-तहसीलदार, सिमरिया
2-तहसीलदार, गुन्नौर		
3-तहसीलदार, देवेन्द्रनगर		
60. पन्ना	4-तहसीलदार, अमानगंज	
	2-तहसीलदार, पन्ना	
	3-तहसीलदार, अजयगढ़	
92. विजयराघवगढ़	4-नायब तहसीलदार, पन्ना	
	2-तहसीलदार, विजयराघवगढ़	

संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की क्रम संख्या एवं नाम	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का क्रमांक एवं नाम	सहायक रिटर्निंग ऑफिसर	
(1)	(2)	(3)	
		3-तहसीलदार, बरही	
		4-नायब तहसीलदार, सिंगौडी	
	93. मुड़वारा	2-तहसीलदार, कटनी	
		3-नायब तहसीलदार, मुड़वारा	
	94. बहोरीबंद	4-नायब तहसीलदार, पहाड़ी	
		2-तहसीलदार, रीठी	
9- सतना	61. चित्रकूट	3-तहसीलदार, बहोरीबन्द	
		4-नायब तहसीलदार, स्लीमनाबाद	
	62. रैगांव (अ.जा.)	2-तहसीलदार, मझगवां	
		3-नायब तहसीलदार, बिरसिंहपुर	
	63. सतना	4-नायब तहसीलदार, मझगवां	
		2-तहसीलदार, कोठी	
	64. नागोद	3-नायब तहसीलदार-1, रघुराजनगर	
		4-नायब तहसीलदार, नागौद	
	65. मैहर	2-तहसीलदार, रघुराजनगर	
		3-नायब तहसीलदार-2, रघुराजनगर	
	66. अमरपाटन	4-नायब तहसीलदार-3, रघुराजनगर	
		2-तहसीलदार, नागौद	
	67. रामपुर-बघेलान	3-नायब तहसीलदार, नागौद	
		4-नायब तहसीलदार, उचेहरा	
	68. सिरमौर	2-तहसीलदार, मैहर	
		3-नायब तहसीलदार-1, मैहर	
	69. सेमरिया	4-नायब तहसीलदार-2, मैहर	
		2-तहसीलदार, अमरपाटन	
70. त्योंथर	3-नायब तहसीलदार, अमरपाटन		
	4-तहसीलदार, रामनगर		
71. मंडगंज	2-तहसीलदार, रामपुर बघेलान		
	3-नायब तहसीलदार-1, रामपुर बघेलान		
10- रीवा	68. सिरमौर	4-नायब तहसीलदार, कोटर	
		2- सहायक कलेक्टर, रीवा	
	69. सेमरिया	3- तहसीलदार, सिरमौर	
		4-तहसीलदार, जवा	
	70. त्योंथर	2-तहसीलदार, सेमरिया	
		3-नायब तहसीलदार, सेमरिया	
	71. मंडगंज	4-मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, सिरमौर	
		2-तहसीलदार, त्योंथर	
		70. त्योंथर	3-नायब तहसीलदार, त्योंथर
			4-मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, त्योंथर
		71. मंडगंज	2-तहसीलदार, हनुमना
			3-नायब तहसीलदार, हनुमना
		4-मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, हनुमना	

संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की क्रम संख्या एवं नाम	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का क्रमांक एवं नाम	सहायक रिटर्निंग ऑफिसर	
(1)	(2)	(3)	
	72. देवतालाब	2-तहसीलदार, मउगंज 3-नायब तहसीलदार, नईगढ़ी 4-मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, नईगढ़ी	
	73.मनगवां (अ.जा.)	2-तहसीलदार, मनगवां 3-नायब तहसीलदार, मनगवां 4-मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, गंगेव	
	74. सीवा	2-तहसीलदार, हुजूर 3-नायब तहसीलदार, हुजूर-1 4-नायब तहसीलदार, हुजूर-2	
	75. गुढ़	2-तहसीलदार, गुढ़ 3- तहसीलदार, रायपुर कर्चुलियान 4-मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, रायपुर कर्चुलियान	
	11- सीधी	76. चुरहट	2-तहसीलदार, चुरहट 3-तहसीलदार, रामपुर नैकिन 4-नायब तहसीलदार, चुरहट
		77. सीधी	2-तहसीलदार, गोपद बनास 3-नायब तहसीलदार, गोपद बनास 4-नायब तहसीलदार (सेमरिया), गोपद बनास
		78. सिहावल	2-तहसीलदार, सिहावल 3-तहसीलदार, बहरी 4-नायब तहसीलदार, सिहावल
		79. चितरंगी (अ.ज.जा.)	2-तहसीलदार, चितरंगी 3-नायब तहसीलदार-1, चितरंगी 4-नायब तहसीलदार-2, चितरंगी
		80. सिंगरौली	2-तहसीलदार, सिंगरौली (शहरी) 3-तहसीलदार, सिंगरौली 4-नायब तहसीलदार, सिंगरौली
		81. देवसर (अ.जा.)	2-तहसीलदार, देवसर 3-तहसीलदार, सरई 4-तहसीलदार, माड़ा
		82. धौहानी (अ.ज.जा.)	2-तहसीलदार, मझौली 3-तहसीलदार, कुसमी 4-नायब तहसीलदार, मझौली
		83. ब्यौहारी (अ.ज.जा.)	2-तहसीलदार, ब्यौहारी 3-नायब तहसीलदार, जयसिंहनगर 4-नायब तहसीलदार, ब्यौहारी
12- शहडोल (अ.ज.जा.)		84. जयसिंहनगर (अ.ज.जा.)	2-तहसीलदार, सोहागपुर 3-नायब तहसीलदार, गोहपारू 4-नायब तहसीलदार, सोहागपुर
		85. जैतपुर (अ.ज.जा.)	2-तहसीलदार, जैतपुर

संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की क्रम संख्या एवं नाम	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का क्रमांक एवं नाम	सहायक रिटर्निंग ऑफिसर
(1)	(2)	(3)
		3-नायब तहसीलदार, बुढ़ार 4-नायब तहसीलदार, जैतपुर
	86. कोतमा	2-तहसीलदार, कोतमा 3-नायब तहसीलदार-1, कोतमा 4-नायब तहसीलदार-2, कोतमा
	87. अनूपपुर (अ.ज.जा.)	2-तहसीलदार, अनूपपुर 3-नायब तहसीलदार-1, अनूपपुर 4-नायब तहसीलदार-2, अनूपपुर
	88. पुष्पराजगढ़ (अ.ज.जा.)	2-तहसीलदार, पुष्पराजगढ़ 3-नायब तहसीलदार-1, पुष्पराजगढ़ 4-नायब तहसीलदार-2, पुष्पराजगढ़
	89. बांधवगढ़ (अ.ज.जा.)	2-तहसीलदार, बांधवगढ़ 3-तहसीलदार, चंदिया 4-तहसीलदार, नौरोजाबाद
	90. मानपुर (अ.ज.जा.)	2-तहसीलदार, मानपुर 3-तहसीलदार, पाली 4-नायब तहसीलदार, ताला
	91. बड़वारा (अ.ज.जा.)	2-तहसीलदार, बड़वारा 3-तहसीलदार, ढीमरखेड़ा 4-नायब तहसीलदार, उमरियापान
13- जबलपुर	95. पाटन	2-तहसीलदार, पाटन 3- तहसीलदार, मझौली 4-नायब तहसीलदार, पाटन
	96. बरगी	2-तहसीलदार, जबलपुर (ग्रामीण) 3-तहसीलदार, शाहपुरा, जबलपुर 4-नायब तहसीलदार, बरगी, जबलपुर
	97. जबलपुर पूर्व (अ.जा.)	2-तहसीलदार, आधारताल, जबलपुर 3-नायब तहसीलदार, आधारताल -1, जबलपुर 4-नायब तहसीलदार (नजूल), जबलपुर
	98. जबलपुर उत्तर	2-नायब तहसीलदार, आधारताल- 2 जबलपुर 3-सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख, जबलपुर 4- नायब तहसीलदार, नजूल, कलेक्ट्रेट जबलपुर
	99. जबलपुर केंद्र	2-तहसीलदार, रांझी, जबलपुर 3-नायब तहसीलदार, रांझी, जबलपुर 4-नायब तहसीलदार, पनागर, जबलपुर -1
	100. जबलपुर पश्चिम	2-तहसीलदार, गोरखपुर, जबलपुर 3-नायब तहसीलदार, गोरखपुर, जबलपुर-1 4-नायब तहसीलदार, गोरखपुर, जबलपुर-2
	101. पनागर	2-तहसीलदार, पनागर, जबलपुर 3-नायब तहसीलदार, पनागर, जबलपुर-2 4-नायब तहसीलदार बरेला, जबलपुर

संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की क्रम संख्या एवं नाम	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का क्रमांक एवं नाम	सहायक रिटनिंग ऑफिसर
(1)	(2)	(3)
	102. सिहोरा (अ.ज.जा.)	2-तहसीलदार, सिहोरा, जबलपुर 3-तहसीलदार, कुण्डम, जबलपुर 4-नायब तहसीलदार, सिहोरा, जबलपुर
14- मण्डला (अ.ज.जा.)	103. शाहपुरा (अ.ज.जा.)	2-तहसीलदार, शाहपुरा 3-नायब तहसीलदार, शाहपुरा 4-नायब तहसीलदार, अमरपुर
	104. डिण्डोरी (अ.ज.जा.)	2-तहसीलदार, डिण्डोरी 3-नायब तहसीलदार, बजाग 4-नायब तहसीलदार, समनापुर
	105. बिछिया (अ.ज.जा.)	2-अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिछिया 3-तहसीलदार, बिछिया 4-नायब तहसीलदार, मवाई
	106. निवास (अ.ज.जा.)	2-डिप्टी कलेक्टर, मण्डला-1 3-तहसीलदार, निवास 4-नायब तहसीलदार, बीजाडांडी
	107. मण्डला (अ.ज.जा.)	2- तहसीलदार, मण्डला 3-नायब तहसीलदार, बम्हनी 4-नायब तहसीलदार, चिरईडोंगरी
	116. केवलारी	2-तहसीलदार, केवलारी 3-तहसीलदार, धनौरा 4-नायब तहसीलदार, केवलारी
	117. लखनादौन (अ.ज.जा.)	2-अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), घंसीर 3-तहसीलदार, लखनादौन 4-तहसीलदार, घंसीर
	118. गोटेगांव (अ.जा.)	2-तहसीलदार, गोटेगांव 3-नायब तहसीलदार-1, गोटेगांव 4-अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), गोटेगांव
15-बालाघाट	108. बैहर (अ.ज.जा.)	2-तहसीलदार, बैहर 3-नायब तहसीलदार, बैहर 4-तहसीलदार, बिरसा
	109. लांजी	2-तहसीलदार, लांजी 3-नायब तहसीलदार, लांजी 4-तहसीलदार, किरनापुर
	110. परसवाड़ा	2-तहसीलदार, परसवाड़ा 3-नायब तहसीलदार-1, लामता बालाघाट 4-सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख, बालाघाट
	111. बालाघाट	2-तहसीलदार, बालाघाट 3-नायब तहसीलदार-1, हट्टा, बालाघाट 4-तहसीलदार, लालबर्षा
	112. वारासिवनी	2-तहसीलदार, वारासिवनी 3-नायब तहसीलदार, वारासिवनी

संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की क्रम संख्या एवं नाम	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का क्रमांक एवं नाम	सहायक रिटर्निंग ऑफिसर
(1)	(2)	(3)
		4-तहसीलदार, खैरलांजी
	113. कटंगी	2-तहसीलदार, कटंगी
		3-नायब तहसीलदार, कटंगी
		4-तहसीलदार, तिरोडी
	114. बरघाट (अ.ज.जा.)	2-अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कुरई
		3-तहसीलदार, बरघाट
		4-तहसीलदार, कुरई
	115. सिवनी	2-तहसीलदार, सिवनी
		3-तहसीलदार, छपारा
		4-नायब तहसीलदार, सिवनी
16-छिन्दवाड़ा	122. जुन्नारदेव (अ.ज.जा.)	2-तहसीलदार, जुन्नारदेव
		3-तहसीलदार, तामिया
		4-नायब तहसीलदार, जुन्नारदेव
	123. अमरवाड़ा (अ.ज.जा.)	2-तहसीलदार, अमरवाड़ा
		3-तहसीलदार, हरई
		4-नायब तहसीलदार, अमरवाड़ा
	124. चौरई	2-तहसीलदार, चौरई
		3-तहसीलदार, बिछुआ
		4-तहसीलदार, चांद
	125. सौंसर	2-तहसीलदार, सौंसर
		3-तहसीलदार, मोहखेड
		4-नायब तहसीलदार, सौंसर
	126 छिन्दवाड़ा	2-तहसीलदार (शहरी), छिंदवाड़ा
		3-तहसीलदार (ग्रामीण), छिंदवाड़ा
		4-नायब तहसीलदार, छिंदवाड़ा
	127. परासिया(अ.जा.)	2-तहसीलदार, परासिया
		3-तहसीलदार, उमरेठ
		4-नायब तहसीलदार, परासिया
	128. पांडुर्ना (अ.ज.जा.)	2-तहसीलदार, पांडुर्ना
		3-नायब तहसीलदार, पांडुर्ना
		4-नायब तहसीलदार, सांवरी (मोहखेड)
17- होशंगाबाद	119. नरसिंहपुर	2-तहसीलदार, नरसिंहपुर
		3- तहसीलदार, करेली
		4-नायब तहसीलदार, नरसिंहपुर
	120. तेंदूखेड़ा	2-तहसीलदार, तेंदूखेड़ा
		3- अतिरिक्त तहसीलदार, गाडरबारा
		4-नायब तहसीलदार, तेंदूखेड़ा
	121. गाडरबारा	2-तहसीलदार, गाडरबारा
		3-नायब तहसीलदार-1, गाडरबारा
		4-नायब तहसीलदार-2, गाडरबारा
	136. सिवनी- मालवा	2-तहसीलदार, सिवनी- मालवा

संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की क्रम संख्या एवं नाम	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का क्रमांक एवं नाम	सहायक रिटर्निंग ऑफिसर
(1)	(2)	(3)
		3-तहसीलदार, डोलरिया 4-अतिरिक्त तहसीलदार, केसला (इटारसी)
	137. होशंगाबाद	2-अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) इटारसी 3-तहसीलदार, नर्मदापुरम (शहरी) 4-तहसीलदार, इटारसी
	138. सोहागपुर	2-तहसीलदार, सोहागपुर
		3-तहसीलदार, माखननगर 4-नायब तहसीलदार, इटारसी
	139. पिपरिया (अ.जा.)	2-तहसीलदार, पिपरिया 3-तहसीलदार, बनखेड़ी 4-नायब तहसीलदार, पिपरिया
	140. उदयपुरा	2-तहसीलदार, बरेली 3-नायब तहसीलदार, उदयपुरा 4-नायब तहसीलदार, देवरी
18- विदिशा	141. भोजपुर	2-तहसीलदार, गोहरगंज 3-तहसीलदार, बाड़ी 4-तहसीलदार, सुल्तानपुर
	142. सांची (अ.जा.)	2-अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) रायसेन 3- तहसीलदार, गैरतगंज 4-नायब तहसीलदार, रायसेन
	143. सिलवानी	2-तहसीलदार, बेगमगंज 3-तहसीलदार, सिलवानी 4-नायब तहसीलदार, बेगमगंज
	144. विदिशा	2-तहसीलदार (शहरी), विदिशा 3-तहसीलदार (ग्रामीण), विदिशा 4-नायब तहसीलदार, विदिशा
	145. बासौदा	2-तहसीलदार, बासौदा 3-तहसीलदार, त्योंदा 4- तहसीलदार, ग्यारसपुर
	156. बुधनी	2-तहसीलदार, बुधनी 3-तहसीलदार, नसरुल्लागंज 4-नायब तहसीलदार, बुधनी
	158. इछावर	2-तहसीलदार, इछावर 3-अपर तहसीलदार, सीहोर 4-नायब तहसीलदार, इछावर
	173. खातेगांव	2-तहसीलदार, खातेगांव 3-तहसीलदार, कन्नौद 4-नायब तहसीलदार, खातेगांव
19- भोपाल	149. बैरसिया (अ.जा.)	2-तहसीलदार, तहसील बैरसिया, जिला भोपाल 3-नायब तहसीलदार-1, तहसील बैरसिया, जिला भोपाल

संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की क्रम संख्या एवं नाम	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का क्रमांक एवं नाम	सहायक रिटर्निंग ऑफिसर	
(1)	(2)	(3)	
	150. भोपाल उत्तर	4-नायब तहसीलदार-2, तहसील बैरसिया, जिला भोपाल 2-तहसीलदार, नजूल वृत्त, संत हिरदाराम नगर (बैरागढ़), भोपाल 3-नायब तहसीलदार-1, नजूल वृत्त, संत हिरदाराम नगर (बैरागढ़), भोपाल 4-नायब तहसीलदार-2, नजूल वृत्त, संत हिरदाराम नगर (बैरागढ़), भोपाल	
	151. नरेला	2-तहसीलदार, नजूल गोविन्दपुरा, वृत्त, भोपाल 3-नायब तहसीलदार-1, नजूल गोविन्दपुरा, वृत्त, भोपाल 4-नायब तहसीलदार-2, नजूल गोविन्दपुरा, वृत्त, भोपाल	
		152. भोपाल दक्षिण-पश्चिम	2-तहसीलदार, नजूल, टी- टी- नगर, वृत्त, भोपाल 3-नायब तहसीलदार-1, नजूल, टी- टी- नगर, वृत्त, भोपाल 4-नायब तहसीलदार-2, नजूल, टी- टी- नगर, वृत्त, भोपाल
			153. भोपाल मध्य
	154. गोविन्दपुरा		
		155. हुजूर	
			159. सीहोर
	20- राजगढ़		
		31. राघोगढ़	
			160. नरसिंहगढ़
	161. ब्यावरा		
		162. राजगढ़	
			163. खिलचीपुर

संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की क्रम संख्या एवं नाम	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का क्रमांक एवं नाम	सहायक रिटर्निंग ऑफिसर
(1)	(2)	(3)
		3-तहसीलदार, जीरापुर
		4-नायब तहसीलदार, भोजपुर
	164. सारंगपुर (अ.जा.)	2-तहसीलदार, सारंगपुर
		3-तहसीलदार, पचोर
		4-नायब तहसीलदार, सारंगपुर
	165. सुसनेर	2-तहसीलदार, सुसनेर
		3-तहसीलदार, नलखेड़ा
		4-नायब तहसीलदार, सुसनेर
21- देवास (अ.जा.)	157. आष्टा (अ.जा.)	2-तहसीलदार, आष्टा
		3-तहसीलदार, जावर
		4-नायब तहसीलदार, आष्टा
	166. आगर (अ.जा.)	2-तहसीलदार, आगर
		3-तहसीलदार, बडौद
		4-नायब तहसीलदार, आगर
	167. शाजापुर	2-तहसीलदार, शाजापुर
		3-तहसीलदार, मो. बडौदिया
		4-नायब तहसीलदार, शाजापुर
	168. शुजालपुर	2-तहसीलदार, शुजालपुर
		3-तहसीलदार, गुलाना
		4-तहसीलदार, पोलायकला
	169. कालापीपल	2-तहसीलदार, कालापीपल
		3-तहसीलदार, अवन्तीपुर बडौदिया
		4-नायब तहसीलदार, कालापीपल
	170. सोनकच्छ (अ.जा.)	2-तहसीलदार, सोनकच्छ
		3-तहसीलदार, टोंकखुर्द
		4-नायब तहसीलदार, सोनकच्छ
	171. देवास	2-तहसीलदार (शहरी), देवास
		3-नायब तहसीलदार-1, देवास
		4-नायब तहसीलदार-2, देवास
	172. हाटपिपल्या	2-तहसीलदार, हाटपिपल्या
		3-तहसीलदार (ग्रामीण), देवास
		4-नायब तहसीलदार, हाटपिपल्या
22- उज्जैन (अ.जा.)	212. नागदा-खाचरोद	2-तहसीलदार, खाचरोद
		3-तहसीलदार, नागदा
		4-नायब तहसीलदार, खाचरोद
	213. महिदपुर	2-तहसीलदार, महिदपुर
		3-तहसीलदार, झारडा
		4-नायब तहसीलदार, महिदपुर
	214. तराना (अ.जा.)	2-तहसीलदार, तराना
		3-तहसीलदार, माकडोन
		4-नायब तहसीलदार, तराना

संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की क्रम संख्या एवं नाम	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का क्रमांक एवं नाम	सहायक रिटर्निंग ऑफिसर
(1)	(2)	(3)
	215. घटिया (अ.जा.)	2-तहसीलदार, घटिया
		3-नायब तहसीलदार, पानबिहार
		4-नायब तहसीलदार, उन्हेल
	216. उज्जैन- उत्तर	2-तहसीलदार, उज्जैन नगर
		3-तहसीलदार, कोठीमहल
		4-नायब तहसीलदार, उज्जैन नगर
	217. उज्जैन - दक्षिण	2-तहसीलदार, उज्जैन ग्रामीण
		3-नायब तहसीलदार, उज्जैन ग्रामीण
		4-नायब तहसीलदार, कोठीमहल
	218. बड़नगर	2-तहसीलदार, बड़नगर
		3-नायब तहसीलदार, बड़नगर
		4-नायब तहसीलदार, इंगोरिया
223. आलोट (अ.जा.)	2-तहसीलदार, आलोट	
	3-तहसीलदार, ताल	
	4-नायब तहसीलदार, आलोट	
23- मंदसौर	222. जावरा	2-तहसीलदार, जावरा
		3-तहसीलदार, पिपलौदा
		4-नायब तहसीलदार, कालूखेड़ा
	224. मंदसौर	2-तहसीलदार, मन्दसौर
		3-नायब तहसीलदार-1, मन्दसौर
		4-नायब तहसीलदार-2, मन्दसौर
	225. मल्हारगढ़ (अ.जा.)	2-तहसीलदार, मल्हारगढ़
		3-नायब तहसीलदार, मल्हारगढ़
		4-नायब तहसीलदार, संजीत
	226. सुवासरा	2-तहसीलदार, सुवासरा
		3-नायब तहसीलदार, सीतामऊ
		4-नायब तहसीलदार, सुवासरा
227. गरोठ	2-तहसीलदार, गरोठ	
	3-नायब तहसीलदार, गरोठ	
	4-नायब तहसीलदार, भानपुरा	
228. मनासा	2-तहसीलदार, मनासा	
	3-नायब तहसीलदार, मनासा	
	4-नायब तहसीलदार, रामपुरा	
229. नीमच	2-तहसीलदार, नीमच	
	3-नायब तहसीलदार, नीमच	
	4-नायब तहसीलदार, जीरन	
230. जावद	2-तहसीलदार, जावद	
	3-नायब तहसीलदार, सिंगोली	
	4-नायब तहसीलदार, जावद	
24- रतलाम (अ.ज.जा.)	191. अलीराजपुर (अ.ज.जा.)	2-तहसीलदार, तहसील अलीराजपुर
		3-तहसीलदार, तहसील सोण्डवा

संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की क्रम संख्या एवं नाम	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का क्रमांक एवं नाम	सहायक रिटर्निंग ऑफिसर
(1)	(2)	(3)
		4-नायब तहसीलदार, अलीराजपुर
	192. जोबट (अ.ज.जा.)	2-तहसीलदार, जोबट 3-तहसीलदार, चन्द्र शोखर आज़ाद नगर 4-नायब तहसीलदार, तहसील जोबट
	193. झाबुआ (अ.ज.जा.)	2-तहसीलदार, झाबुआ 3-तहसीलदार, रानापुर 4-नायब तहसीलदार, झाबुआ
	194. थांदला (अ.ज.जा.)	2-तहसीलदार, थांदला 3-तहसीलदार, मेघनगर 4-नायब तहसीलदार, थांदला
	195. पेटलावद (अ.ज.जा.)	2-तहसीलदार, पेटलावद 3-तहसीलदार, रामा 4-नायब तहसीलदार, पेटलावद
	219. रतलाम ग्रामीण (अ.ज.जा.)	2-तहसीलदार, रतलाम ग्रामीण 3-नायब तहसीलदार - 1, रतलाम ग्रामीण 4-नायब तहसीलदार - 2, रतलाम ग्रामीण
	220. रतलाम सिटी	2-तहसीलदार, रतलाम सिटी 3-नायब तहसीलदार - 1, रतलाम सिटी 4-नायब तहसीलदार - 2, रतलाम सिटी
	221. सैलाना (अ.ज.जा.)	2-तहसीलदार, सैलाना 3-तहसीलदार, बाजना 4-तहसीलदार, रावटी
25- धार (अ.ज.जा.)	196. सरदारपुर (अ.ज.जा.)	2-तहसीलदार, सरदारपुर 3-नायब तहसीलदार-1, सरदारपुर 4-नायब तहसीलदार-2, सरदारपुर
	197. गंधवानी (अ.ज.जा.)	2-तहसीलदार, गंधवानी 3-नायब तहसीलदार-1, कुक्षी 4-नायब तहसीलदार-1, धार
	198. कुक्षी (अ.ज.जा.)	2-तहसीलदार, कुक्षी 3-अतिरिक्त तहसीलदार, कुक्षी 4-नायब तहसीलदार-2, कुक्षी
	199. मनावर (अ.ज.जा.)	2-तहसीलदार, मनावर 3-नायब तहसीलदार-1, मनावर 4-नायब तहसीलदार-2, मनावर
	200. धरमपुरी (अ.ज.जा.)	2-तहसीलदार, धरमपुरी 3-नायब तहसीलदार वृत्त- नालछा, तहसील पीथमपुर 4-नायब तहसीलदार-1, धरमपुरी
	201. धार	2-तहसीलदार, धार 3-अतिरिक्त तहसीलदार, धार 4-नायब तहसीलदार-2, धार
	202. बदनावर	2-तहसीलदार, बदनावर

संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की क्रम संख्या एवं नाम	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का क्रमांक एवं नाम	सहायक रिटर्निंग ऑफिसर	
(1)	(2)	(3)	
26- इन्दौर	209. डॉ अम्बेडकरनगर-महू	3-नायब तहसीलदार-1, बदनावर	
		4-नायब तहसीलदार-2, बदनावर	
		2-तहसीलदार, डॉ अम्बेडकरनगर (महू) -1	
		3- तहसीलदार, डॉ अम्बेडकरनगर (महू) -2	
	26- इन्दौर	203. देपालपुर	4-नायब तहसीलदार, मानपुर
			2-तहसीलदार, देपालपुर
			3-तहसीलदार, हातोद
			4-नायब तहसीलदार, बेटमा, तहसील देपालपुर
		204. इन्दौर-1	2-तहसीलदार, मल्हारगंज
			3-नायब तहसीलदार-1, मल्हारगंज
4-नायब तहसीलदार-2, मल्हारगंज			
205. इन्दौर-2		2-तहसीलदार, कनाडिया	
		3- नायब तहसीलदार, कनाडिया	
		4-अतिरिक्त तहसीलदार, गौतमपुरा, तहसील देपालपुर	
206 इन्दौर-3	2-तहसीलदार, जूनी इन्दौर		
	3-नायब तहसीलदार-1, जूनी इन्दौर		
	4-नायब तहसीलदार-2, जूनी इन्दौर		
207. इन्दौर-4	2-तहसीलदार, खुडैल		
	3-नायब तहसीलदार, खुडैल		
	4-सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख-2, इन्दौर		
208. इन्दौर-5	2-तहसीलदार, भिचौली हप्पी		
	3- नायब तहसीलदार, भिचौली हप्पी		
	4- सहायक अधीक्षक, राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण शाला इन्दौर		
210 राऊ	2-तहसीलदार, राऊ		
	3- नायब तहसीलदार, राऊ		
	4-सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख-3, इन्दौर		
211. सांवेर (अ.जा.)	2-तहसीलदार, सांवेर		
	3-नायब तहसीलदार, सांवेर		
	4-नायब तहसीलदार, क्षिप्रा		
27- खरगौन (अ.ज.जा.)	183. महेश्वर (अ.जा.)	2-तहसीलदार, तहसील महेश्वर	
		3-नायब तहसीलदार, तहसील महेश्वर	
		4-नायब तहसीलदार, तहसील मण्डलेश्वर	
	184. कसरावद	2-तहसीलदार, तहसील कसरावद	
		3-नायब तहसीलदार, तहसील कसरावद-1	
		4-नायब तहसीलदार, तहसील कसरावद-2	
	185. खरगौन	2-तहसीलदार, तहसील खरगौन	
		3-तहसीलदार, तहसील गोगांव	
		4-नायब तहसीलदार, तहसील खरगौन	
	186. भगवानपुरा (अ.ज.जा.)	2-तहसीलदार, तहसील भगवानपुरा	
		3-तहसीलदार, तहसील सेगांव	
		4-नायब तहसीलदार, तहसील भगवानपुरा	

संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की क्रम संख्या एवं नाम	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का क्रमांक एवं नाम	सहायक रिटर्निंग ऑफिसर
(1)	(2)	(3)
	187. सेंधवा (अ.ज.जा.)	2-तहसीलदार, सेंधवा
		3-नायब तहसीलदार, सेंधवा
		4-तहसीलदार, वरला
	188. राजपुर (अ.ज.जा.)	2-तहसीलदार, राजपुर
		3-तहसीलदार, ठीकरी
		4-तहसीलदार अंजड़
	189. पानसेमल (अ.ज.जा.)	2-तहसीलदार, पानसेमल
		3-तहसीलदार, निवाली
		4-नायब तहसीलदार, पानसेमल
190. बड़वानी (अ.ज.जा.)	2-तहसीलदार, बड़वानी	
	3-तहसीलदार, पाटी	
	4-नायब तहसीलदार, बड़वानी	
28- खण्डवा	174. बागली (अ.ज.जा.)	2-तहसीलदार, बागली
		3-तहसीलदार, सतवास
		4-तहसीलदार, उदयनगर
	175. मांधाता	2-तहसीलदार, पुनासा
		3-नायब तहसीलदार, मूंदी
		4-नायब तहसीलदार, मोहना
	177. खण्डवा (अ.जा.)	2-तहसीलदार, खण्डवा
		3-नायब तहसीलदार-1, खण्डवा
		4-नायब तहसीलदार-2, खण्डवा
	178. पंधाना (अ.ज.जा.)	2-तहसीलदार, पंधाना
		3-नायब तहसीलदार-3, खण्डवा
		4-तहसीलदार, छैगांवमाखन
179.नेपानगर (अ.ज.जा.)	2-तहसीलदार, नेपानगर	
	3-तहसीलदार, खकनार	
	4-नायब तहसीलदार, तुकईथड तहसील, खकनार	
180.बुरहानपुर	2-तहसीलदार, बुरहानपुर	
	3-तहसीलदार, बुरहानपुर (नगर)	
	4-नायब तहसीलदार, बुरहानपुर	
181. भीकनगाँव (अ.ज.जा.)	2-तहसीलदार, तहसील भीकनगाँव	
	3-तहसीलदार, तहसील झिरन्या	
	4-नायब तहसीलदार, तहसील झिरन्या	
182. बड़वाहा	2-तहसीलदार, तहसील बड़वाहा	
	3-तहसीलदार, तहसील सनावद	
	4-नायब तहसीलदार, तहसील बड़वाहा	
29- बैतूल (अ.ज.जा.)	129. मुलताई	2-तहसीलदार, मुलताई
		3-नायब तहसीलदार, मुलताई
		4-नायब तहसीलदार, प्रभातपट्टन
130. आमला (अ.जा.)	2-तहसीलदार, आमला	
	3-तहसीलदार, घोड़ाडोंगरी	

संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की क्रम संख्या एवं नाम	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का क्रमांक एवं नाम	सहायक रिटर्निंग ऑफिसर
(1)	(2)	(3)
		4-नायब तहसीलदार, आमला
	131. बैतूल	2-तहसीलदार, बैतूल ग्रामीण
		3-तहसीलदार, बैतूल नगर
		4-नायब तहसीलदार, बैतूल
	132. घोड़ाडोंगरी (अ.ज.जा.)	2-तहसीलदार, शाहपुर
		3-तहसीलदार, चिचोली
		4-नायब तहसीलदार, घोड़ाडोंगरी
	133. भैंसदेही (अ.ज.जा.)	2-तहसीलदार, भैंसदेही
		3-तहसीलदार, आठनेर
		4- तहसीलदार, भीमपुर
	134. टिमरनी (अ.ज.जा.)	2- तहसीलदार, टिमरनी
		3- तहसीलदार, रहटगांव
		4- तहसीलदार, सिराली
	135. हरदा	2-तहसीलदार, हरदा
		3-तहसीलदार, खिरकिया
		4- तहसीलदार, हंडिया
	176. हरसूद (अ.ज.जा.)	2-तहसीलदार, हरसूद
		3-नायब तहसीलदार, हरसूद
		4-नायब तहसीलदार, खालवा

2. उक्त सारणी के स्तम्भ 3 में उल्लेखित सहायक रिटर्निंग अधिकारियों के रूप में नियुक्त अधिकारियों की नियुक्ति संबंधित लोक सभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतों की गणना सफलता पूर्वक सम्पन्न होने के पश्चात प्रभावी नहीं रहेगी।

आदेश से,  
हस्ता./-  
(अमित कुमार)  
सचिव,  
भारत निर्वाचन आयोग.

**ELECTION COMMISSION OF INDIA**

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110 001  
New Delhi, Dated: 1<sup>st</sup> May, 2024-11 Vaisakha, 1946 (Saka)

**NOTIFICATION**

**No. 434/MP-HP/2024(1):-** In exercise of powers conferred by sub-section (1) of Section 22 of the Representation of the People Act, 1951 ( 43 of 1951), the Election Commission hereby appoints, in addition to the officers appointed by its notification No. 434/MP-HP/2024(1), dated 18<sup>th</sup> March, 2024, each of the officers of the Government of Madhya Pradesh specified in column 3 of the Table below as the Assistant Returning Officer to assist the Returning Officer of the Parliamentary Constituency of the State of Madhya Pradesh as specified in the column 1 of the said table, in the performance of the function of such Returning Officer:-

**TABLE**

No. & Name of Parliamentary Constituency	AC No. & Name	Assistant Returning Officer
(1)	(2)	(3)
1-MORENA	1.Sheopur	2-Tehsildar, Sheopur
		3-Tehsildar, Baroda
		4-Nayab Tehsildar, Manpur
	2. Vijaypur	2-Tehsildar, Vijaypur
		3-Tehsildar, Karahal
		4-Tehsildar, Veerapur
	3.Sabalgarh	2-Tehsildar, Sabalgarh
		3-Nayab Tehsildar-1, Sabalgarh
		4-Nayab Tehsildar-1, Kailaras
	4.Joura	2-Tehsildar, Kailaras
		3-Nayab Tehsildar-1, Joura
		4-Nayab Tehsildar-2, Joura
	5.Sumawali	2-Tehsildar, Joura
		3-Tehsildar, Morena Rural
		4-Nayab Tehsildar-1, Morena Urban
	6.Morena	2-Tehsildar, Morena Urban
		3-Tehsildar, Banmore
		4-Nayab Tehsildar, Banmore
	7.Dimani	2-Tehsildar, Ambah
		3-Nayab Tehsildar-1, Morena Rural
		4-Nayab Tehsildar-1, Ambah

No. & Name of Parliamentary Constituency	AC No. & Name	Assistant Returning Officer
(1)	(2)	(3)
	8.Ambah(SC)	2-Tehsildar, Porsa
		3-Nayab Tehsildar-2, Ambah
		4-Nayab Tehsildar, Porsa
2- BHIND (SC)	9.Ater	2-Tehsildar, Ater
		3-Nayab Tehsildar, Surpura
		4-Nayab Tehsildar, Peeperi
	10.Bhind	2-Tehsildar Urban, Bhind
		3-Tehsildar Rural, Bhind
		4-Nayab Tehsildar, Bhind
	11.Lahar	2-Tehsildar, Lahar
		3- Tehsildar, Mihona
		4-Nayab Tehsildar, Lahar
	12.Mehgaon	2-Tehsildar, Mehgaon
		3- Tehsildar, Gormi
		4-Nayab Tehsildar, Mehgaon
13.Gohad(SC)	2-Tehsildar, Gohad	
	3-Tehsildar, Mau	
	4-Nayab Tehsildar, Gohad	
20.Sewda	2-Tehsildar, Indargarh	
	3-Nayab Tehsildar-1, Sewda	
	4-Nayab Tehsildar-2, Scwda	
21.Bhander (SC)	2-Tehsildar, Bhander	
	3-Nayab Tehsildar-1, Bhander	
	4-Nayab Tehsildar-2, Bhander	
22.Datia	2-Tehsildar, Datia	
	3-Nayab Tehsildar-1, Datia	
	4-Nayab Tehsildar-2, Datia	
3- GWALIOR	14.Gwalior Rural	2-Tehsildar, Tansen
		3-Nayab Tehsildar, Morar
		4-Nayab Tehsildar, Hastinapur
	15.Gwalior	2- Tehsildar, Morar
		3-Nayab Tehsildar, Purani Chawani
		4-Nayab Tehsildar, Bahodapur
	16.Gwalior East	2-Tehsildar, City Center
		3-Nayab Tehsildar, Mehra
		4-Nayab Tehsildar, Utila
	17.Gwalior South	2-Nayab Tehsildar, Lashkar-1
		3-Nayab Tehsildar, Lashkar-2
		4- Superintendent, Land-Record, Gwalior

No. & Name of Parliamentary Constituency	AC No. & Name	Assistant Returning Officer
(1)	(2)	(3)
	18. Bhitwar	2-Tehsildar, Bhitwar
		3-Tehsildar, Ghatigaon
		4-Nayab Tehsildar, Chhinor
	19. Dabra (SC)	2-Tehsildar, Dabra
		3-Nayab Tehsildar, Dabra - 1
		4-Nayab Tehsildar, Dabra - 2
	23. Karera (SC)	2-Tehsildar, Karera
		3-Nayab Tehsildar, Karera
		4-Nayab Tehsildar, Narwar
	24. Pohari	2-Tehsildar, Pohri
		3-Nayab Tehsildar, Pohri
		4-Nayab Tehsildar, Bairad
4- Guna	25. Shivpuri	2-Tehsildar, Shivpuri
		3-Nayab Tehsildar, Shivpuri
		4-Nayab Tehsildar, Khod (Pichhore)
	26. Pichhore	2-Tehsildar, Pichhore
		3-Nayab Tehsildar, Pichhore
		4-Tehsildar, Khaniyadhana
	27. Kolaras	2-Tehsildar, Kolaras
		3-Nayab Tehsildar, Kolaras
		4-Nayab Tehsildar, Badarwas
	28. Bamori	2-Tehsildar, Bamori
		3-Nayab Tehsildar, Circle Fatehgarh, Tehsil Bamori
		4-Nayab Tehsildar, Circle Umri, Tehsil Guna (Rural)
	29. Guna (SC)	2-Tehsildar, Guna (Rural)
		3-Tehsildar, Guna (Urban)
		4-Nayab Tehsildar, Guna (Urban)
	32. Ashok Nagar (SC)	2-Tehsildar, Ashoknagar
		3-Nayab Tehsildar, Ashoknagar
		4-Tehsildar, Shadhora
33. Chanderi	2-Tehsildar, Chanderi	
	3-Tehsildar, Isagarh	
	4-Tehsildar, Naisaray	
34. Mungaoli	2-Tehsildar, Mungaoli	
	3-Tehsildar, Bahadurpur	
	4-Tehsildar, Piprai	
5- SAGAR	35. Bina (SC)	2-Tehsildar, Bina
		3-Nayab Tehsildar, Bina -1
		4-Nayab Tehsildar, Bina -2

No. & Name of Parliamentray Constituency	AC No. & Name	Assistant Returning Officer
(1)	(2)	(3)
	36.Khurai	2-Tehsildar, Khurai
		3-Tehsildar, Malthone
		4-Nayab Tehsildar, Khurai
	37.Surkhi	2-Tehsildar, Rahatgarh
		3-Tehsildar, Jaisinagar
		4-Nayab Tehsildar, Rahatgarh
	40.Naryoli (SC)	2-Tehsildar, Sagar (Rural)
		3-Nayab Tehsildar, Naryawali
		4-Nayab Tehsildar, Sagar (Rural)
	41.Sagar	2-Tehsildar (Urban) , Sagar
		3- Superintendent Land-Record, Sagar
		4- Nayab Tehsildar, Sagar (Urban)
	146.Kurwai (SC)	2-Tehsildar, Kurwai
		3-Nayab Tehsildar, Kurwai
		4-Tehsildar, Pathari
	147.Sironj	2-Tehsildar, Sironj
		3-Nayab Tehsildar , Sironj
		4-Tehsildar, Lateri
	148.Shamshabad	2-Tehsildar, Nateran
		3-Nayab Tehsildar, Nateran
		4-Tehsildar, Shamshabad
6- TIKAMGARH (SC)	43.Tikamgarh	2-Tehsildar, Tikamgarh
		3-Tehsildar, Badagaon
		4-Nayab Tehsildar, Samarra
	44.Jatara (SC)	2-Tehsildar, Jatara
		3-Tehsildar, Lidhora
		4-Nayab Tehsildar, Barana
	45.Prithvipur	2-Tehsildar, Prithvipur
		3-Tehsildar, Mohangarh
		4-Nayab Tehsildar, Jairon
	46.Niwari	2-Tehsildar, Niwari
		3-Tehsildar, Orchha
		4-Nayab Tehsildar, Niwari
	47.Khargapur	2-Tehsildar, Palera
		3-Tehsildar, Khargapur
		4- Tehsildar, Baldevgarh
	48.Maharajpur	2-Tehsildar, Naugaon
		3-Nayab Tehsildar, Naugaon
		4-Tehsildar, Maharajpur

No. & Name of Parliamentry Constituency	AC No. & Name	Assistant Returning Officer
(1)	(2)	(3)
	51.Chhatarpur	2-Tehsildar, Chhatarpur (City)
		3- Tehsildar, Chhatarpur (Rural)
		4-Nayab Tehsildar, Chhatarpur
	52.Bijawar	2-Tehsildar, Bijawar
		3-Nayab Tehsildar, Bijawar
		4-Nayab Tehsildar, Dewara
7- DAMOH	38.Deori	2-Tehsildar, Deori
		3-Tehsildar, Kesli
		4-Nayab Tehsildar, Deori
	39.Rehli	2-Tehsildar, Rehli
		3-Tehsildar, Garahkota
		4-Nayab Tehsildar, Rehli
	42.Banda	2-Tehsildar, Banda
		3-Tehsildar, Shahgarh
		4-Nayab Tehsildar, Banda
	53.Malhara	2-Tehsildar, Badamalchra
		3-Tehsildar, Buxwaha,
		4- Tehsildar, Ghuwara
	54.Pathariya	2-Tehsildar, Pathariya
		3-Tehsildar, Batiyagarh
		4-Nayab Tehsildar, Pathariya
	55.Damoh	2-Tehsildar, Damoh
		3-Tehsildar, Damyantipuram, Damoh
		4-Nayab Tehsildar, Damoh
56.Jabera	2-Tehsildar, Tendukhera	
	3- Tehsildar, Jabera	
	4- Nayab Tehsildar, Banwar	
57.Hatta (SC)	2- Tehsildar, Hatta	
	3-Nayab Tehsildar, Patera	
	4- Nayab Tehsildar, Hatta	
8- KHAJURAHO	49.Chandla (SC)	2-Tehsildar, Lawkushnagar
		3-Tehsildar, Chandala
		4-Tehsildar, Gorihar
	50.Rajnagar	2-Tehsildar, Rajnagar
		3-Nayab Tehsildar, Rajnagar
		4-Nayab Tehsildar, Chandranagar
	58.Pawai	2-Tehsildar, Pawai
		3-Tehsildar, Shahnagar
		4-Tehsildar, Simariya

No. & Name of Parliamentray Constituency	AC No. & Name	Assistant Returning Officer	
(1)	(2)	(3)	
	59.Gunnaor (SC)	2-Tehsildar, Gunnour	
		3-Tehsildar, Devendranagar	
		4-Tehsildar, Amanganj	
	60.Panna	2-Tehsildar, Panna	
		3-Tehsildar, Ajaygarh	
		4-Nayab Tehsildar, Panna	
	92.Vijayraghavgarh	2-Tehsildar, VijayRaghavgarh	
		3-Tehsildar, Barahi	
		4-Nayab Tehsildar, Singaudi	
		93.Murwara	2-Tehsildar, Katni
			3-Nayab Tehsildar, Murwara
			4-Nayab Tehsildar, Pahari
94.Bahoriband		2-Tehsildar, Rithi	
		3- Tehsildar, Bahoriband	
		4-Nayab Tehsildar, Slimanabad	
9- SATNA	61.Chitrakoot	2- Tehsildar, Manjhgawan	
		3-Nayab Tehsildar, Birsinghpur	
		4-Nayab Tehsildar, Manjhgawan	
	62.Raigaon (SC)	2-Tehsildar, Kothi	
		3-Nayab Tehsildar-1, Raghurajnagar	
		4-Nayab Tehsildar, Nagod	
	63.Satna	2-Tehsildar, Raghurajnagar	
		3-Nayab Tehsildar-2, Raghurajnagar	
		4-Nayab Tehsildar-3, Raghurajnagar	
	64.Nagod	2-Tehsildar, Nagod	
		3-Nayab Tehsildar, Nagod	
		4-Nayab Tehsildar, Uchehra	
	65.Maihar	2-Tehsildar, Maihar	
		3-Nayab Tehsildar-1, Maihar	
		4-Nayab Tehsildar-2, Maihar	
	66.Amarpatan	2-Tehsildar, Amarpatan	
		3-Nayab Tehsildar, Amarpatan	
		4-Tehsildar, Ramnagar	
67.Rampur-Baghelan	2-Tehsildar, Rampur Baghelan		
	3-Nayab Tehsildar-1, Rampur Baghelan		
	4-Nayab Tehsildar, Kotar		
10- REWA	68.Sirmour	2- Assistant Collector, Rewa	
		3- Tehsildar, Sirmour	
		4-Tehsildar, Jawa	

No. & Name of Parliamentray Constituency	AC No. & Name	Assistant Returning Officer
(1)	(2)	(3)
	69.Semariya	2-Tehsildar, Semariya
		3-Nayab Tehsildar, Semariya
		4-Chief Executive Officer, Janpad Panchayat Sirmour
	70.Teonthar	2-Tehsildar, Teonthar
		3-Nayab Tehsildar, Teonthar
		4-Chief Executive Officer, Janpad Panchayat Teonthar
	71.Mauganj	2-Tehsildar, Hanumana
		3-Nayab Tehsildar, Hanumana
		4-Chief Executive Officer, Janpad Panchayat Hanumana
	72.Deotalab	2-Tehsildar, Mauganj
		3-Nayab Tehsildar, Naigarhi
		4-Chief Executive Officer, Janpad Panchayat Naigarhi
73.Mangawan (SC)	2-Tehsildar, Mangawan	
	3-Nayab Tehsildar, Mangawan	
	4-Chief Executive Officer, Janpad Panchayat Gangeo	
74.Rewa	2-Tehsildar, Huzur	
	3-Nayab Tehsildar, Huzur-1	
	4-Nayab Tehsildar, Huzur-2	
75.Gurh	2-Tehsildar, Gurh	
	3-Tehsildar, Raipur Karchuliyani	
	4-Chief Executive Officer, Janpad Panchayat Raipur Karchuliyani	
11- SIDHI	76.Churhat	2-Tehsildar, Churhat
		3-Tehsildar, Rampur Naikin
		4-Nayab Tehsildar, Churhat
	77.Sidhi	2-Tehsildar, Gopad Banas
		3-Nayab Tehsildar, Gopad Banas
		4-Nayab Tehsildar(Semariya), Gopad Banas
	78.Sihawal	2-Tehsildar, Sihawal
		3-Tehsildar, Bahari
		4-Nayab Tehsildar, Sihawal
	79.Chitrangi (ST)	2-Tehsildar, Chitrangi
		3-Nayab Tehsildar-1, Chitrangi
		4-Nayab Tehsildar-2, Chitrangi
80.Singrauli	2-Tehsildar, Singrauli (Urban)	
	3-Tehsildar, Singrauli	
	4-Nayab Tehsildar, Singrauli	
81.Devsar (SC)	2-Tehsildar, Devsar	
	3-Tehsildar, Sarai	

No. & Name of Parliamentray Constituency	AC No. & Name	Assistant Returning Officer	
(1)	(2)	(3)	
		4- Tehsildar, Mada	
	82.Dhauhani (ST)	2-Tehsildar, Majhouli 3-Tehsildar, Kusmi 4-Nayab Tehsildar, Majhouli	
	83. Beohari (ST)	2-Tehsildar, Beohari 3- Nayab Tehsildar, Jaisinghnagar 4-Nayab Tehsildar, Beohari	
12- SHAHDOL (ST)	84.Jaisingnagar (ST)	2-Tehsildar, Sohagpur 3- Nayab Tehsildar, Gohparu 4-Nayab Tehsildar, Sohagpur	
	85.Jaitpur (ST)	2-Tehsildar, Jaitpur 3- Nayab Tehsildar, Budhar 4-Nayab Tehsildar, Jaitpur	
	86.Kotma	2-Tehsildar, Kotma 3-Nayab Tehsildar-1 , Kotma 4-Nayab Tehsildar-2, Kotma	
	87.Anuppur (ST)	2-Tehsildar, Anuppur 3- Nayab Tehsildar-1, Anuppur 4- Nayab Tehsildar-2, Anuppur	
	88.Pushprajgarh (ST)	2-Tehsildar, Pushprajgarh 3- Nayab Tehsildar-1, Pushprajgarh 4-Nayab Tehsildar-2, Pushprajgarh	
	89.Bandhavgarh (ST)	2-Tehsildar , Bandhavgarh 3-Tehsildar, Chandia 4-Tehsildar, Nowrozabad	
	90.Manpur (ST)	2-Tehsildar, Manpur 3-Tehsildar, Pali 4-Nayab Tehsildar, Tala	
	91.Barwara (ST)	2-Tehsildar, Barwara 3-Tehsildar, Dhimarkhera 4-Nayab Tehsildar, Umariyapan	
	13- JABALPUR	95.Patan	2-Tehsildar, Patan 3-Tehsildar, Majholi 4-Nayab Tehsildar, Patan
		96.Bargi	2-Tehsildar, Jabalpur (Rural) 3-Tehsildar, Shahpura, Jabalpur 4-Nayab Tehsildar, Bargi , Jabalpur
		97.Jabalpur Purba (SC)	2-Tehsildar, Adhartal, Jabalpur 3-Nayab Tehsildar, Adhartal- 1, Jabalpur

No. & Name of Parliamentry Constituency	AC No. & Name	Assistant Returning Officer
(1)	(2)	(3)
		4-Nayab Tehsildar (Nazul), Jabalpur
	98.Jabalpur Uttar	2-Nayab Tehsildar, Adhartal-2, Jabalpur
		3-Assistant Superintendent Land Record, Jabalpur
		4-Nayab Tehsildar, Nazul, Collectorate Jabalpur
	99.Jabalpur Cantt.	2-Tehsildar, Ranjhi, Jabalpur
		3-Nayab Tehsildar, Ranjhi, Jabalpur
		4-Nayab Tehsildar, Panagar, Jabalpur -1
	100.Jabalpur Paschim	2-Tehsildar, Gorakhpur, Jabalpur
		3-Nayab Tehsildar, Gorakhpur, Jabalpur-1
		4-Nayab Tehsildar, Gorakhpur, Jabalpur-2
	101.Panagar	2-Tehsildar, Panagar, Jabalpur
		3-Nayab Tehsildar, Panagar, Jabalpur-2
		4-Nayab Tehsildar, Barela, Jabalpur
	102.Sihora (ST)	2-Tehsildar, Sihora, Jabalpur
		3-Tehsildar, Kundam, Jabalpur
		4-Nayab Tehsildar, Sihora, Jabalpur
14- MANDLA (ST)	103.Shahpura (ST)	2-Tehsildar, Shahpura
		3-Nayab Tehsildar, Shahpura
		4-Nayab Tehsildar, Amarpur
	104.Dindori (ST)	2-Tehsildar, Dindori
		3-Nayab Tehsildar, Bajag
		4-Nayab Tehsildar, Samnapur
	105.Bichhiya (ST)	2- Sub Divisional Officer (Revenue), Bichhiya
		3- Tehsildar, Bichhiya
		4-Nayab Tehsildar, Mawai
	106.Niwas (ST)	2-Deputy Collector, Mandla-1
		3- Tehsildar, Niwas
		4-Nayab Tehsildar, Bijadandi
	107.Mandla (ST)	2-Tehsildar, Mandala
		3-Nayab Tehsildar, Bamhni
		4-Nayab Tehsildar, Chiraidongari
	116.Keolari	2-Tehsildar, Keolari
		3-Tehsildar, Dhanora
		4-Nayab Tehsildar, Keolari
	117.Lakhnadon (ST)	2-Sub Divisional Officer (Revenue), Ghansor
		3-Tehsildar, Lakhnadon
		4-Tehsildar, Ghansor
	118.Gotegaon (SC)	2-Tehsildar, Gotegaon
		3-Nayab Tehsildar-1, Gotegaon

No. & Name of Parliamentary Constituency	AC No. & Name	Assistant Returning Officer
(1)	(2)	(3)
		4-Sub Divisional Officer (Revenue), Gotegaon
15- BALAGHAT	108.Baihar (ST)	2-Tehsildar, Baihar
		3-Nayab Tehsildar, Baihar
		4-Tehsildar, Birsar
	109.Lanji	2-Tehsildar, Lanji
		3-Nayab Tehsildar, Lanji
		4-Tehsildar, Kirnapur
	110.Paraswada	2-Tehsildar, Paraswara
		3-Nayab Tehsildar-1, Lamta Balaghat
		4-Assistant Supritendent, Land Record, Balaghat
	111.Balaghat	2-Tehsildar, Balaghat
		3-Nayab Tehsildar-1, Hatta, Balaghat
		4-Tehsildar, Lalbarra
	112.Waraseoni	2-Tehsildar, Waraseoni
		3-Nayab Tehsildar, Waraseoni
		4-Tehsildar, Khairlanji
113.Katangi	2-Tehsildar, Katangi	
	3-Nayab Tehsildar, Katangi	
	4-Tehsildar, Tirodi	
114.Barghat (ST)	2-Sub Divisional Officer (Revenue), Kurai	
	3-Tehsildar, Barghat	
	4-Tehsildar, Kurai	
115.Seoni	2-Tehsildar, Seoni	
	3-Tehsildar, Chhapara	
	4-Nayab Tehsildar, Seoni	
16- CHHINDWARA	122.Junnardeo (ST)	2-Tehsildar, Junnardeo
		3-Tehsildar, Tamiya
		4-Nayab Tehsildar, Junnardeo
	123.Amarwara (ST)	2-Tehsildar, Amarwara
		3-Tehsildar, Harrai
		4-Nayab Tehsildar, Amarwara
	124.Churai	2-Tehsildar, Churai
		3-Tehsildar, Bichhua
		4-Tehsildar, Chand
	125.Saunsar	2-Tehsildar, Saunsar
		3-Tehsildar, Mohkhed
		4-Nayab Tehsildar, Saunsar
126.Chhindwara	2-Tehsildar (Urban) , Chhindwara	
	3-Tehsildar (Rural) , Chhindwara	

No. & Name of Parliamentray Constituency	AC No. & Name	Assistant Returning Officer
(1)	(2)	(3)
		4-Nayab Tehsildar, Chhindwara
	127.Parasia (SC)	2-Tehsildar, Parasia
		3-Tehsildar, Umreth
		4-Nayab Tehsildar, Parasia
	128.Pandhuma (ST)	2-Tehsildar, Pandhurana
		3-Nayab Tehsildar, Pandhurana
		4-Nayab Tehsildar, Sanwari (Mohkhed)
17- HOSHANGABAD	119. Narsingpur	2-Tehsildar, Narsinghpur
		3-Tehsildar, Kareli
		4-Nayab Tehsildar, Narsinghpur
	120.Tendukheda	2-Tehsildar, Tendukheda
		3-Additional Tehsildar, Gadarwara
		4-Nayab Tehsildar, Tendukheda
	121.Gadarwara	2-Tehsildar, Gadarwara
		3-Nayab Tehsildar-1, Gadarwara
		4-Nayab Tehsildar-2, Gadarwara
	136.Seoni-Malwa	2-Tehsildar, Seoni-Malwa
		3-Tehsildar, Dolriya
		4-Additional Tehsildar, Kesla (Itarsi)
	137.Hoshangabad	2-Sub Divisional Officer (Revenue), Itarasi
		3-Tehsildar, Narmadapuram (Urban)
		4-Tehsildar, Itarasi
	138.Sohagpur	2-Tehsildar, Sohagpur
		3-Tehsildar, MakhanNagar
		4-Nayab Tehsildar, Itarsi
	139.Pipariya (SC)	2-Tehsildar, Pipariya
		3-Tehsildar, Bankhedi
		4-Nayab Tehsildar, Pipariya
	140.Udaipura	2-Tehsildar, Bareli
		3-Nayab Tehsildar, Udaipura
		4-Nayab Tehsildar, Devri
18- VIDISHA	141.Bhojpur	2-Tehsildar, Goharganj
		3-Tehsildar, Badi
		4-Tehsildar, Sultanpur
	142.Sanchi (SC)	2-Sub Divisional Officer (Revenue) Raisen
		3-Tehsildar, Gairatganj
		4-Nayab Tehsildar, Raisen
	143.Silwani	2-Tehsildar, Begamganj
		3- Tehsildar, Silwani

No. & Name of Parliamentry Constituency	AC No. & Name	Assistant Returning Officer	
(1)	(2)	(3)	
		4-Nayab Tehsildar, Begamganj	
	144.Vidisha		2-Tehsildar (Urban) , Vidisha
			3-Tehsildar (Rural) , Vidisha
			4-Nayab Tehsildar, Vidisha
	145.Basoda		2-Tehsildar, Basoda
			3-Tehsildar, Tyonda
			4-Tehsildar, Gyaraspur
	156.Budhni		2-Tehsildar, Budhni
			3-Tehsildar, Nasrullahganj
			4-Nayab Tehsildar, Budhni
	158.Ichhawar		2-Tehsildar, Ichhawar
			3-Additional Tehsildar, Sehore
		4-Nayab Tehsildar, Ichhawar	
173.Khategaon		2-Tehsildar, Khategaon	
		3-Tehsildar, Kannod	
		4-Nayab Tehsildar, Khategaon	
19 - BHOPAL	149.Berasia (SC)	2-Tehsildar, Tehsil Berasia, District Bhopal	
		3-Nayab Tehsildar-1, Tehsil Berasia, District Bhopal	
		4-Nayab Tehsildar-2, Tehsil Berasia, District Bhopal	
	150.Bhopal Uttar	2-Tehsildar, Nazul Circle, Sant Hirdaram nagar (Bairagarh), Bhopal	
		3-Nayab Tehsildar-1 , Nazul Circle, Sant Hirdaram nagar (Bairagarh) Bhopal	
		4-Nayab Tehsildar-2 , Nazul Circle, Sant Hirdaram nagar (Bairagarh) Bhopal	
	151.Narela	2-Tehsildar, Nazul Govindpura, Circle, Bhopal	
		3-Nayab Tehsildar-1, Nazul Govindpura, Circle, Bhopal	
		4-Nayab Tehsildar-2, Nazul Govindpura, Circle, Bhopal	
	152.Bhopal Dakshin-Paschim	2-Tehsildar, Nazul, T-T-Nagar, Circle, Bhopal	
		3-Nayab Tehsildar-1, Nazul, T-T-Nagar, Circle, Bhopal	
		4-Nayab Tehsildar-2, Nazul, T-T-Nagar, Circle, Bhopal	
	153.Bhopal Madhya	2-Tehsildar, Nazul City, Circle, Bhopal	
		3-Nayab Tehsildar-1, Nazul City, Circle, Bhopal	
4-Nayab Tehsildar-2, Nazul City, Circle, Bhopal			
154.Govindpura		2-Tehsildar, Nazul M-P- Nagar, Circle, Bhopal	

No. & Name of Parliamentry Constituency	AC No. & Name	Assistant Returning Officer
(1)	(2)	(3)
		3-Nayab Tehsildar-1, Nazul M-P- Nagar, Circle, Bhopal
		4-Nayab Tehsildar-2, Nazul M-P- Nagar, Circle, Bhopal
	155.Huzur	2-Tehsildar, Tahsil Huzur, District Bhopal
		3-Additional Tehsildar-1, Tahsil Huzur, District Bhopal
		4-Nayab Tehsildar-2, Tahsil Huzur, District Bhopal
	159.Sehore	2-Tehsildar, Sehore
		3-Tehsildar, Shyampur
		4-Nayab Tehsildar, Sehore
20- RAJGARH	30.Chachoura	2-Tehsildar, Chachoura
		3-Tehsildar, Kumbhraj
		4- Nayab Tehsildar, Madhusudangarh
	31.Raghogarh	2-Tehsildar, Raghogarh
		3-Tehsildar, Madhusudangarh
		4- Tehsildar, Aron
	160.Narsingharh	2-Tehsildar , Narsingharh
		3-Nayab Tehsildar , Narsingharh
		4-Nayab Tehsildar , Kurawar Narsingharh
	161.Biaora	2-Tehsildar, Biaora
		3-Tehsildar, Suthaliya
		4-Nayab Tehsildar, Biaora
	162.Rajgarh	2-Tehsildar, Rajgarh
		3-Tehsildar, Khujner
		4-Nayab Tehsildar, Rajgarh
	163.Khilchipur	2-Tehsildar, Khilchipur
		3- Tehsildar, Zirapur
		4-Nayab Tehsildar, Bhojpur
	164.Sarangpur(SC)	2-Tehsildar, Sarangpur
		3-Tehsildar, Pachor
		4-Nayab Tehsildar, Sarangpur
	165.Susner	2-Tehsildar, Susner
		3-Tehsildar, Nalkheda
		4-Nayab Tehsildar, Susner
21- DEWAS (SC)	157.Ashta(SC)	2-Tehsildar, Ashta
		3-Tehsildar, Jawar
		4-Nayab Tehsildar, Ashta
	166.Agar(SC)	2-Tehsildar, Agar
		3-Tehsildar, Barod

No. & Name of Parliamentray Constituency	AC No. & Name	Assistant Returning Officer	
(1)	(2)	(3)	
	167.Shajapur	4-Nayab Tehsildar, Agar	
		2-Tehsildar, Shajapur	
		3-Tehsildar, Mo. Barodiya	
		4-Nayab Tehsildar, Shajapur	
	168.Shujalpur	2-Tehsildar, Shujalpur	
		3-Tehsildar, Gulana	
		4-Tehsildar, Polaykalan	
	169.Kalapipal	2-Tehsildar, Kalapipal	
		3-Tehsildar, Avantipur Barodiya	
		4-Nayab Tehsildar, Kalapipal	
		170.Sonkatch (SC)	2-Tehsildar, Sonkatch
			3-Tehsildar, Tonkkhurd
4-Nayab Tehsildar, Sonkatch			
171.Dewas		2-Tehsildar (Urban), Dewas	
		3-Nayab Tehsildar-1, Dewas	
		4-Nayab Tehsildar-2, Dewas	
172.Hatpipliya		2-Tehsildar, Hatpipliya	
	3-Tahsildar (Rural), Dewas		
	4-Nayab Tehsildar, Hatpipliya		
22- UJJAIN (SC)	212.Nagada-Khachrod	2-Tehsildar, Khachrod	
		3-Tehsildar, Nagda	
		4-Nayab Tehsildar, Khachrod	
	213.Mahidpur	2-Tehsildar, Mahidpur	
		3-Tehsildar, Jharda	
		4-Nayab Tehsildar, Mahidpur	
	214.Tarana(SC)	2-Tehsildar, Tarana	
		3-Tehsildar, Makdon	
		4-Nayab Tehsildar, Tarana	
	215.Ghatiya(SC)	2-Tehsildar, Ghatiya	
		3-Nayab Tehsildar, Panbihar	
		4-Nayab Tehsildar, Unahel	
	216.Ujjain -Uttar	2-Tehsildar, Ujjain City	
		3-Tehsildar, KothiMahal	
		4-Nayab Tehsildar, Ujjain City	
	217.Ujjain -Dakshin	2-Tehsildar, Ujjain Rural	
		3-Nayab Tehsildar, Ujjain Rural	
		4-Nayab Tehsildar, KothiMahal	
218.Badnagar	2-Tehsildar, Badnagar		
	3-Nayab Tehsildar, Badnagar		

No. & Name of Parliamentry Constituency	AC No. & Name	Assistant Returning Officer	
(1)	(2)	(3)	
23- MANDSOUR	223. Alot(SC)	4-Nayab Tehsildar, Ingoria	
		2-Tehsildar, Alot	
		3- Tehsildar, Tal	
		4-Nayab Tehsildar, Alot	
	222. Jaora	2-Tehsildar, Jaora	
		3-Tehsildar, Piploda	
	224. Mandsour	4-Nayab Tehsildar, Kalukheda	
		2-Tehsildar, Mandsour	
		3-Nayab Tehsildar-1, Mandsour	
		4-Nayab Tehsildar-2, Mandsour	
		225. Malhargarh(SC)	2-Tehsildar Malhargarh
			3-Nayab Tehsildar, Malhargarh
4-Nayab Tehsildar, Sanjeet			
226. Suwasra		2-Tehsildar, Suwasra	
		3-Nayab Tehsildar, Sitamau	
		4-Nayab Tehsildar, Suwasra	
227. Garoth		2-Tehsildar, Garoth	
		3-Nayab Tehsildar, Garoth	
	4-Nayab Tehsildar, Bhanpura		
228. Manasa	2-Tehsildar, Manasa		
	3-Nayab Tehsildar, Manasa		
	4-Nayab Tehsildar, Rampura		
229. Neemuch	2-Tehsildar, Neemuch		
	3-Nayab Tehsildar, Neemuch		
	4-Nayab Tehsildar, Jeeran		
230. Jawad	2-Tehsildar, Jawad		
	3-Nayab Tehsildar, Singoli		
	4-Nayab Tehsildar, Jawad		
24- RATLAM (ST)	191. Alirajpur(ST)	2-Tehsildar, Tehsil, Alirajpur	
		3-Tehsildar, Tehsil, sondwa	
		4-Nayab Tehsildar, Alirajpur	
	192. Jobat(ST)	2-Tehsildar, Jobat	
		3-Tehsildar, Chandra Shekhar Aajad nagar	
		4-Nayab Tehsildar, Tehsil Jobat	
	193. Jhabua(ST)	2-Tehsildar, Jhabua	
		3-Tehsildar, Ranapur	
		4-Nayab Tehsildar, Jhabua	
	194. Thandla(ST)	2-Tehsildar, Thandla	
		3- Tehsildar, Meghnagar	

No. & Name of Parliamentry Constituency	AC No. & Name	Assistant Returning Officer
(1)	(2)	(3)
		4-Nayab Tehsildar, Thandla
	195.Petlawad(ST)	2-Tehsildar, Petlawad
		3- Tehsildar, Rama
		4-Nayab Tehsildar, Petlawad
	219.Ratlam Rural(ST)	2-Tehsildar, Ratlam Rural
		3-Nayab Tehsildar - 1, Ratlam Rural
		4-Nayab Tehsildar -2, Ratlam Rural
	220.Ratlam City	2-Tehsildar, Ratlam City
		3-Nayab Tehsildar - 1, Ratlam City
		4-Nayab Tehsildar -2, Ratlam City
	221.Sailana(ST)	2-Tehsildar, Sailana
		3-Tehsildar, Bajna
		4-Tehsildar, Raoti
25- DHAR (ST)	196.Sardarpur(ST)	2-Tehsildar, Sardarpur
		3-Nayab Tehsildar-1, Sardarpur
		4-Nayab Tehsildar-2, Sardarpur
	197.Gandhwani (ST)	2-Tehsildar, Gandhwani
		3-Nayab Tehsildar-1, Kukshi
		4-Nayab Tehsildar-1, Dhar
	198.Kukshi(ST)	2-Tehsildar, Kukshi
		3-Additional Tehsildar, Kukshi
		4-Nayab Tehsildar-2, Kukshi
	199.Manawar(ST)	2- Tehsildar, Manawar
		3-Nayab Tehsildar-1, Manawar
		4-Nayab Tehsildar-2, Manawar
	200.Dharampuri (ST)	2-Tehsildar, Dharampuri
		3-Nayab Tehsildar Circle- Nalchha, Tehsil Pithampur
		4-Nayab Tehsildar-1, Dharampuri
	201.Dhar	2-Tehsildar, Dhar
		3-Additional Tehsildar, Dhar
		4-Nayab Tehsildar-2, Dhar
	202.Badnawar	2-Tehsildar, Badnawar
		3-Nayab Tehsildar-1, Badnawar
		4-Nayab Tehsildar-2, Badnawar
	209.Dr. Ambedkar Nagar-Mhow	2-Tehsildar, Dr. AmbedkarNagar (Mhow)-1
		3- Tehsildar, Dr. AmbedkarNagar (Mhow)-2
		4-Nayab Tehsildar, Manpur
26- INDORE	203.Debālpur	2-Tehsildar, Debalpur
		3- Tehsildar, Hatod

No. & Name of Parliamentray Constituency	AC No. & Name	Assistant Returning Officer
(1)	(2)	(3)
		4-Nayab Tehsildar, Betma, Tehsil Debalpur
	204.Indore-1	2-Tehsildar, Malharganj 3-Nayab Tehsildar-1, Malharganj 4-Nayab Tehsildar-2, Malharganj
	205.Indore-2	2-Tehsildar, Kanadiya 3-Nayab Tehsildar, Kanadiya
		4-Additional Tehsildar, Gautampura, Tehsil Depalpur
	206.Indore-3	2-Tehsildar, Juni Indore 3-Nayab Tehsildar-1, Juni Indore 4-Nayab Tehsildar-2, Juni Indore
	207.Indore-4	2-Tehsildar, Khudel 3-Nayab Tehsildar, Khudel 4-Assistant Superintendent, Land Record-2, Indore
	208.Indore-5	2-Tehsildar, Bhicholi Hapsi 3-Nayab Tehsildar, Bhicholi Hapsi 4-Assistant Superintendent, Revenue Inspector Training School, Indore
	210.Rau	2-Tehsildar, Rau 3-Nayab Tehsildar, Rau 4-Assistant Superintendent, Land Record-3, Indore
	211.Sanwer (SC)	2-Tehsildar, Sanwer 3-Nayab Tehsildar, Sanwer 4-Nayab Tehsildar, Kshipra
27- KHARGONE (ST)	183.Maheshwar (SC)	2-Tehsildar, Tahsil Maheshwar 3-Nayab Tehsildar, Tahsil Maheshwar 4-Nayab Tehsildar, Tahsil Mandleshwar
	184.Kasrawad	2-Tehsildar, Tahsil Kasrawad 3-Nayab Tehsildar, Tahsil Kasrawad-1 4-Nayab Tehsildar, Tahsil Kasrawad-2
	185.Khargone	2-Tehsildar, Tahsil Khargone 3-Tehsildar, Tahsil Gogaon 4-Nayab Tehsildar, Tahsil Khargone
	186.Bhagwanpura (ST)	2-Tehsildar, Tahsil Bhagwanpura 3-Tehsildar, Tahsil Segaoon 4-Nayab Tehsildar, Tahsil Bhagwanpura
	187.Sindhawa(ST)	2-Tehsildar, Sindhawa 3-Nayab Tehsildar, Sindhawa 4-Tehsildar, Warla
	188.Rajpur(ST)	2-Tehsildar, Rajpur 3-Tehsildar, Thikri

No. & Name of Parliamentray Constituency	AC No. & Name	Assistant Returning Officer
(1)	(2)	(3)
	189.Pansema(ST)	4- Tehsildar, Anjad
		2-Tehsildar, Pansema
		3- Tehsildar, Niwali
	190.Badwani(ST)	4-Nayab Tehsildar, Pansema
		2-Tehsildar, Badwani
		3-Tehsildar, Pati
28- KHANDWA	174.Bagali (ST)	4-Nayab Tehsildar, Badwani
		2-Tehsildar, Bagali
		3-Tehsildar, Satwas
	175.Mandhata	4-Tehsildar, Udainagar
		2-Tehsildar, Punasa
		3-Nayab Tehsildar, Mundi
	177.Khandwa(SC)	4-Nayab Tahsildar, Mohana
		2-Tehsildar, Khandwa
		3-Nayab Tehsildar-1, Khandwa
	178.Pandhana (ST)	4-Nayab Tehsildar-2, Khandwa
		2-Tehsildar, Pandhana
		3-Nayab Tehsildar-3, Khandwa
	179.Nepanagar (ST)	4-Tehsildar, ChhaigaonMakhan
		2-Tehsildar, Nepanagar
		3- Tehsildar , Khaknar
	180.Burhanpur	4-Nayab Tehsildar Tukaithad Tehsil , Khaknar
		2-Tehsildar, Burahanpur
		3-Tehsildar, Burahanpur (Nagar)
	181. Bikhangaon (ST)	4-Nayab Tehsildar , Burahanpur
		2-Tehsildar, Tahsil Bhikangaon
		3-Tehsildar, Tahsil Jhirnya
182.Badwah	4-Nayab Tehsildar, Tahsil Jhirnya	
	2-Tehsildar, Tahsil Barwah	
	3-Tehsildar, Tahsil Sanawad	
29- BETUL (ST)	129.Multai	4-Nayab Tehsildar, Tahsil Barwah
		2-Tehsildar, Multai
		3-Nayab Tehsildar, Multai
	130.Amla (SC)	4-Nayab Tehsildar , PrabhatPattan
		2-Tehsildar, Amla
		3-Tehsildar, Ghoradongri
131.Betul .	4-Nayab Tehsildar, Amla	
	2-Tehsildar, Betul Rural	
		3-Tehsildar, Betul City

No. & Name of Parliamentary Constituency	AC No. & Name	Assistant Returning Officer
(1)	(2)	(3)
		4-Nayab Tehsildar , Betul
	132.Ghoradongri (ST)	2-Tehsildar, Shahpur
		3-Tehsildar, Chicholi
		4- Nayab Tehsildar, Ghoradongri
	133.Bhainsdehi (ST)	2- Tehsildar, Bhainsdehi
		3-Tehsildar, Athner
		4- Tehsildar, Bhimpur
	134.Timarni (ST)	2- Tehsildar, Timarani
		3- Tehsildar, Rahatgaon
		4- Tehsildar, Sirali
	135.Harda	2-Tehsildar, Harda
		3-Tehsildar, Khirikiya
		4- Tehsildar, Handiya
	176.Harsud (ST)	2-Tehsildar, Harsud
		3-Nayab Tehsildar, Harsud
		4-Nayab Tehsildar, Khalwa

2. The Officers in Column 3 of the above table shall cease to function as Assistant Returning Officers immediately after the successful completion of Counting of Votes in concerned Parliamentary Constituencies.

By order,  
Sd./-  
(AMIT KUMAR)  
Secretary,  
Election Commission of India.